

सहावर में की जा रही थी 99 एवं शंख मार्क तंबाकू की नकली पैकिंग



Publish Date: Mon, 11 Oct 2021 05:40 AM (IST) Author: Jagran

सहावर संवाद सूत्र थाना पुलिस ने शनिवार देर रात कस्बा के मुहल्ला नई बस्ती में एक मकान पर छापा मारकर 99 एवं शंख कंपनी की नकली तंबाकू की पैकिंग करते तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

सहावर, संवाद सूत्र: थाना पुलिस ने शनिवार देर रात कस्बा के मुहल्ला नई बस्ती में एक मकान पर छापा मारकर 99 एवं शंख कंपनी की नकली तंबाकू की पैकिंग करते तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी मात्रा में दोनों कंपनियों के पैकिंग मटेरियल, तंबाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। आरोपितों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। दो आरोपित फरार हैं। वहीं, पुलिस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि उक्त माल की आपूर्ति कहां-कहां की जाती थी।

एसपी बोत्रे रोहन प्रमोद को सूचना मिली थी कि कस्बा सहावर में विभिन्न कंपनियों के नाम से तंबाकू की नकली पैकिंग करने का कारोबार होता है। उन्होंने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी अनिल कुमार सिसोदिया, सीओ शैलेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मुहल्ला नई बस्ती के सुरेंद्र सिंह के मकान पर छापा मारा। वहां तंबाकू पैक कर रहे एवं घर में मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे लोगों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया। दो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से दोनों कंपनियों के पैकिंग मटेरियल, कांटा चक्की, तंबाकू बनाने एवं भरने के उपकरण बरामद किए हैं। 272 बोरी कच्ची तंबाकू भी पुलिस को मिली है। प्रेसवार्ता कर एसपी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि पुलिस ने उज्ज्वल गुप्ता निवासी मुहल्ला मोरी कस्बा सहावर, करन एवं दीपेंद्र निवासी पुरोरी थाना कंपिल फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि विक्रम, विशाल निवासीगण सहावर मौके से फरार हो गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के टीमें बनाई गई हैं।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kasganj-tobacco-22102445.html>